



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3308]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2017/अग्रहायण 8, 1939

No. 3308]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017/AGRAHAYANA 8, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

**का.आ. 3774(अ).**—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम(एनडीडीवी), 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल में 01 दिसम्बर, 2017 से निदेशक नामित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु वह भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1869(अ), दिनांक 09 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

क्र. सं.	नाम एवं वर्तमान पद	पदनाम	अधिनियम की धारा (8) की संदर्भित उपधारा	कार्यकाल तक
1.	श्री संग्राम आर. चौधरी, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद	एनडीडीवी के बोर्ड में पूर्ण कालिक निदेशक	8 (2) (डी)	01 दिसम्बर, 2017 से 30 नवम्बर, 2019 तक दो वर्षों के लिए

[फा. सं. 17-2/2017-प्रशासन-IV]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का.आ. सं. 210(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसके फलस्वरूप संशोधित का.आ. सं. 1-32(अ), दिनांक 11.3.95, का. आ. सं. 532(अ), दिनांक 6.6.95, का.आ. सं. 166(अ), दिनांक 3.3.96, का.आ. सं. 386(अ), दिनांक 3.6.96, का.आ. सं. 605(अ), दिनांक 2.9.96, का.आ. सं. 678(अ), दिनांक 1.8.96, का.आ. सं. 750(अ), दिनांक 13.10.97, का.आ. सं. 836(अ), दिनांक 18.12.97 का.आ. सं. 738(अ), दिनांक 28.8.98, का.आ. सं. 1000(अ) दिनांक 26.11.98, का.आ. सं. 156(अ), दिनांक 10.3.99, का.आ. सं. 755(अ), दिनांक 18.8.2000, का.आ. सं. 351(अ), दिनांक 25.4.2001, का.आ. सं. 656(अ), दिनांक 21.6.2002, का.आ. सं. 1077(अ), दिनांक 16.9.2003, का.आ. सं. 212(अ), दिनांक 16.2.2005, का.आ. सं. 826(अ), दिनांक 29.5.2006, का.आ. सं. 461(अ), दिनांक 29.3.2007, का.आ. सं. 1738(अ), दिनांक 10/11.1; 2007, का.आ. सं. 1503(अ), दिनांक 17.6.2008, का.आ. सं. 2658(अ), दिनांक 10.11.2008, का.आ. सं. 1274(अ) दिनांक 19.5.2009, का.आ. सं. . 2575(अ), दिनांक 9.10.2009, का.आ. सं. 1233(अ), दिनांक 26.5.2010, का.आ. सं. .168(अ), दिनांक 24.1.2011, का.आ. सं. 1779(अ), दिनांक 27.7.2011, का.आ. सं. 97(अ), दिनांक 14.12.2011, का.आ. सं. 98(अ), दिनांक 22.12.2011, का. आ. सं. 241(अ), दिनांक 8.2.2012, का.आ. सं. 992(अ), दिनांक 27.4.2012, का.आ. सं. 1141(अ), दिनांक 26.4.2013, का.आ. सं. 1697(अ), दिनांक 13.6.2013, का.आ. सं. 1341(अ), दिनांक 15.4.2014, का.आ. सं. 1451(अ), दिनांक 3.6.2014, का.आ. सं. 3076(अ), दिनांक 3.12.2014, का.आ. सं. 721(अ), दिनांक 05.3.2015, का.आ. सं. 722(अ), दिनांक 05.3.2015, का.आ. सं. 3132(अ), दिनांक 9.10.2015, का.आ. सं. 1076(अ), दिनांक 12 मार्च, 2016, का.आ. सं. 1674(अ), दिनांक 03.05.2016, का.आ. सं. 684(अ), दिनांक 28.02.2017 और का.आ. सं. 1869(अ), दिनांक 09.06.2017 ।

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2017.

**S.O. 3774(E).**—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates with effect from 01<sup>st</sup> December 2017 the following person to be the Director on the Board of Directors of National Dairy Development Board(NDDB), for the period indicated against the name and for that purpose makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare (Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries) S.O. No. 1869(E) dated 09<sup>th</sup> June, 2017:—

S. No.	Name & Present Post held	Designation	Relevant sub-section of section 8 of the Act.	Tenure upto
1.	Shri Sangram R. Chaudhary, Executive Director, National Dairy Development Board, Anand	Whole-time Director in the Board of NDDB	8 (2) (d)	For two years w.e.f. 1 <sup>st</sup> December, 2017 to 30 <sup>th</sup> November, 2019

[F. No. 17-2/2017-Admn. IV]

Dr. O. P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* S.O. No. 210(E) dated 4-3-1994 and subsequently amended vide S.O.1-32(E), dated 11-3-1995, S.O.532(E), dated 6-6-1995, S.O. 166(E), dated 3-3-1996, S.O. 386(E), dated 3-6-1996, S.O.605(E), dated 2-9-1996, S.O. 678(E), dated 1-8-1996, S.O. 750(E), dated 13-10-1997, S.O. 836(E), dated 18-12-1997, S.O. 738(E), dated 28-8-1998, S.O. 1000(E), dated 26-11-1998, S.O. 156(E), dated 10-3-1999, S.O. 755(E), dated 18-8-2000, S.O. 351(E), dated 25-4-2001, S.O. 656(E), dated 21-6-2002, S.O. 1077(E), dated 16-9-2003, S.O. 212(E), dated 16-2-2005, S.O. 826(E), dated 29-5-2006, S.O. 461(E), dated 29-3-2007, S.O. 1738(E), dated 10/11-10-2007, S.O. 1503(E), dated 17-6-2008, S.O. 2658(E), dated 10-11-2008, S.O. 1274(E), dated 19-5-2009, S.O. 2575(E), dated 9-10-2009, S.O. 1233(E), dated 26-5-2010, S.O. 168(E), dated 24-1-2011, S.O. 1779(E), dated 27-7.2011, S.O. 97(E), dated 14.12.2011, S.O. 98(E) dated 22.12.2011, S.O. 241(E) dated 8-2-2012, S.O. 992(E) dated 27-4-2012, S.O. 1141(E), dated 26-4-2013 and S.O. 1697(E), dated 13-6-2013, S.O. 1341(E), dated 15-4-2014, S.O. 1451(E), dated 3-6-2014, S.O. No. 3076(E), dated 3-12-2014, S.O. 721(E), dated 5-3-2015, S.O. No. 722(E), dated 5-3-2015, S.O. No. 3132(E), dated 9-10- 2015, S.O. No. 1076(E) ,dated 12-03-2016, S.O. No. 1674(E), dated 03-05-2016, S.O. No. 684(E), dated 28.02.2017 and S.O. No. 1869(E), dated 09.06.2017.